



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1118 राँची, बुधवार,

12 दिसम्बर, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

11 दिसम्बर, 2018

विषय :- विभागीय संकल्प संख्या-428/रा., दिनांक 30 जनवरी, 2018 में टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक भूमि की बंधेज को विलोपित करने एवं उनके द्वारा धारित भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु पूर्व प्रावधानित 1 रु० के सांकेतिक (टोकन) सेस को भी मुक्त कर निःशुल्क रसीद निर्गत करने के संबंध में।

संचिका संख्या-06/टाना भगत-318/2017-4872-- विभागीय संकल्प संख्या-428/रा., दिनांक 30 जनवरी, 2018 द्वारा टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक की भूमि का लगान मुक्त होने के अतिरिक्त टाना भगतों की भूमि का वर्ष 1956 से भुगतये सेस की राशि मो० 61,63,209/- (एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ) रुपये की माफी एवं भविष्य में टोकन के रूप में मात्र 1 रुपया लगान शुल्क सेस की वसूली कर रसीद निर्गत करने संबंधी उपरोक्त विभागीय संकल्प इस संकल्प के निर्गत होने के पूर्व प्रभावी था।

2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या-428/रा., दिनांक 30 जनवरी, 2018 में टाना भगतों द्वारा धारित 10 एकड़ तक की भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु प्रावधानित एक (1) रुपया टोकन सेस को निःशुल्क करने हेतु आंदोलनरत टाना भगतों के साथ दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के समक्ष सम्पन्न वार्ता में एक (1) रू० टोकन सेस के प्रावधान को भी समाप्त करते हुए टाना भगतों द्वारा धारित भूमि को लगान मुक्त कर निःशुल्क रसीद निर्गत करने का निदेश प्राप्त हुआ।

3. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के उक्त निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि “विभागीय संकल्प संख्या-428, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में 10 एकड़ भूमि के बंधेज को विलोपित किया जाय एवं टाना भगतों द्वारा धारित भूमि का रसीद निर्गत करने हेतु पूर्व प्रावधानित एक (1) रू० टोकन सेस को भी मुक्त कर निःशुल्क रसीद निर्गत किया जाय।”

यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि इस प्रस्ताव से राज्य के दोनों काश्तकारी अधिनियमों (Tenancy Acts) के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 की बैठक के मद सं०-23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।
